



प्रेस नोट थाना डिडौली

दिनांक 05.07.2021

नकली अपमिश्रित शराब का निर्माण एवं विक्रय करने वाले 02 अभियुक्त 450 पच्चे के ढक्कन, 55 पच्चे देशी शराब फाईटर मार्का, 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 70 खाली पच्चे व शराब बनाने के उपकरण लैक्टो मीटर सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती पूनम, पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतीश पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा कल रात्रि डिडौली से कालाखेडा जाने वाले रास्ते से कुछ दूरी पर एक अधबने मकान में नकली अपमिश्रित शराब का निर्माण कर रहे 02 अभियुक्त 1. सोनू पुत्र रोहताश निवासी मौ0 गांधीनगर कस्बा व थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा व 2. अंकित कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बीरलपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को समय 22.35 बजे गिरफ्तार किया गया जिनका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 55 पच्चे देशी शराब फाईटर मार्का, 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 70 खाली पच्चे फाईटर मार्का, 450 पच्चे के ढक्कन व शराब बनाने के उपकरण लैक्टो मीटर बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना डिडौली पर मु0अ0सं0 277/21 धारा 272,273 भादवि 60,72 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।



पूछताछ विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हम लोग आर्थिक लाभ लेने हेतु यूरिया से नकली अपमिश्रित शराब तैयार करते हैं तथा पच्चों में भरकर इस तरह से ढक्कन से सील कर देते हैं जोकि खरीदने वाले को पच्चा बिल्कुल नया लगे ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सोनू पुत्र रोहताश निवासी मौ0 गांधीनगर कस्बा व थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. अंकित कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बीरलपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी:-

1. 55 पच्चे देशी शराब फाईटर मार्का, 20 लीटर अपमिश्रित शराब, अपमिश्रण सामग्री 02 कि०ग्रा० यूरिया ।
2. 70 खाली पच्चे, 450 पच्चे के ढक्कन व शराब बनाने के उपकरण लैक्टो मीटर बाल्टी आदि ।

फरार अभियुक्त:-

1. राजकुमार पुत्र सूमान सिंह निवासी मौ० रामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू:-

1. मु०अ०सं० 277/21 धारा 272,273 भादवि 60,72 आबकारी अधि०

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित:-

2. मु०अ०सं० 277/21 धारा 272,273 भादवि 60,72 आबकारी अधि०
अभियुक्तगणों के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० प्रवीन कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. का० 401 टिन्कू कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. का० 1246 रविश कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. का० 1065 शिवांक यादव थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. का० 1060 रणवीर सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

